

सारणी सं. 5.7 – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार राज्य तथा जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण
मार्च 2009

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
राज्य : मिज़ोरम

(राशि लाख रुपयों में)

व्यवसाय	ग्रामीण			अर्ध शहरी		
	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
	1	2	3	4	5	6
I. कृषि	7,226	40,80	33,13	3,201	71,57	63,88
1. प्रत्यक्ष वित्त	7,206	40,46	32,84	3,161	69,54	61,91
2. परोक्ष वित्त	20	34	28	40	2,03	1,97
II. उद्योग	496	11,25	9,79	749	40,55	35,55
1. खनन तथा उत्खनन	5	82	1,65	13	1,14	1,02
2. खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण	57	90	78	128	6,68	5,91
(क) चावल, आटा व दाल मिलें	—	—	—	1	6	4
(ख) चीनी	—	—	—	—	—	—
(ग) खाद्य तेल और वनस्पती	—	—	—	—	—	—
(घ) चाय अभिसंस्करण	—	—	—	—	—	—
(ङ) फलों और वनस्पतियों का अभिसंस्करण	2	6	6	—	—	—
(च) अन्य	55	84	72	127	6,62	5,87
3. पेय पदार्थ और तम्बाकू	—	—	—	2	9	8
4. वस्त्र	112	3,37	2,49	84	2,54	2,23
(क) सूती वस्त्र	4	16	17	3	15	15
(ख) पैटसन और अन्य प्राकृतिक फायबर के वस्त्र	—	—	—	—	—	—
(ग) हथकरघा वस्त्र और खादी	62	1,26	98	57	1,35	1,20
(घ) अन्य वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	46	1,96	1,34	24	1,05	88
5. कागज, कागज उत्पाद और मुद्रण	12	37	29	22	2,58	2,33
6. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	58	85	79	60	91	93
7. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	—	—	—	6	40	36
8. रत्न और आभूषण	—	—	—	—	—	—
9. रबर और प्लास्टिक उत्पाद	—	—	—	16	1,21	1,10
10. रसायन और रासायनिक उत्पाद	8	13	10	6	30	22
(क) भारी औद्योगिक रसायन	—	—	—	—	—	—
(ख) उर्वरक	—	—	—	—	—	—
(ग) औषध और औषधीय उत्पाद	3	—	—	1	1	1
(घ) खाद्यतेर तेल	—	—	—	1	15	6
(ङ) अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद	5	12	10	4	14	14
11. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन	—	—	—	1	14	9
12. सीमेंट और सीमेंट उत्पादों का निर्माण	7	22	14	2	73	1,09
13. मूल धातुएं और धातु उत्पाद	5	12	13	24	84	80
(क) लोहा व इस्पात	—	—	—	5	45	37
(ख) अलोह धातु	—	—	—	1	2	3
(ग) धातु उत्पाद	5	12	13	18	36	41
14. अभियांत्रिकी	28	66	69	19	1,30	1,28
(क) भारी अभियांत्रिकी	3	14	14	2	14	16
(ख) हल्की अभियांत्रिकी	21	42	49	9	68	68
(ग) विद्युत् मशीनरी और सामान	3	8	5	3	22	21
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सामान	1	2	2	5	27	22
15. वाहन, वाहन पुर्ज और परिवहन उपस्कर	7	7	4	6	3,83	2,84
16. अन्य उद्योग	145	3,14	2,23	153	5,20	4,17
17. विद्युत्, गैस और जल	—	—	—	1	20	19
(क) विद्युत् उत्पादन और प्रेषण	—	—	—	—	—	—
(ख) गैर-परंपरागत ऊर्जा	—	—	—	—	—	—
(ग) गैस, बाष्प और जल आपूर्ति	—	—	—	1	20	19
18. निर्माण	52	59	45	206	12,46	10,91
(क) आधारभूत निर्माण के अलावा	6	34	23	27	2,31	2,17
(ख) आधारभूत निर्माण	46	25	22	179	10,15	8,74
III. परिवहन परिचालक	79	2,79	1,72	84	4,94	4,34
IV. व्यावसायिक और अन्य सेवाएं	129	1,85	1,54	267	46,98	26,13
1. व्यावसायिक सेवाएं	—	—	—	60	3,98	3,61
2. पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	8	11	6	34	1,30	1,05
3. मनोरंजन सेवाएं	1	3	2	9	43	27
4. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार	2	13	11	13	1,37	1,18
5. अन्य	118	1,58	1,35	151	39,90	20,02
V. वैयक्तिक ऋण	10,507	250,52	217,38	14,907	421,02	353,36
1. आवास	3,446	137,70	122,99	5,712	231,95	200,28
2. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	1,371	7,97	6,04	1,352	7,69	5,70
3. वाहन	290	7,12	5,56	1,047	27,52	21,20
4. शिक्षा	131	1,93	1,31	237	12,15	10,11
5. व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड	—	—	—	3	27	6
6. अन्य	5,269	95,82	81,47	6,556	141,44	116,03
VI. व्यापार	535	14,48	9,62	1,117	90,92	80,08
1. थोक व्यापार	45	5,64	2,36	31	13,68	10,57
2. खुदरा व्यापार	490	8,84	7,26	1,086	77,24	69,50
VII. वित्त	459	3,01	2,36	206	1,66	97
VIII. अन्य सभी	161	15,28	14,64	176	2,80	2,76
कुल बैंक ऋण	19,592	339,98	290,18	20,707	680,45	567,06

सारणी सं. 5.7 – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार राज्य तथा जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण
मार्च 2009

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
राज्य : मिज़ोरम

(राशि लाख रुपयों में)

व्यवसाय	शहरी			महानगरीय		
	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
	7	8	9	10	11	12
I. कृषि	3,440	26,29	22,80	—	—	—
1. प्रत्यक्ष वित्त	3,384	25,79	22,50	—	—	—
2. परोक्ष वित्त	56	50	30	—	—	—
II. उद्योग	1,626	42,92	35,55	—	—	—
1. खनन तथा उत्खनन	8	72	59	—	—	—
2. खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण	229	3,68	3,50	—	—	—
(क) चावल, आटा व दाल मिलें	—	—	—	—	—	—
(ख) चीनी	—	—	—	—	—	—
(ग) खाद्य तेल और वनस्पती	—	—	—	—	—	—
(घ) चाय अभिसंस्करण	—	—	—	—	—	—
(ङ) फलों और वनस्पतियों का अभिसंस्करण	18	74	42	—	—	—
(च) अन्य	211	2,94	3,08	—	—	—
3. पेय पदार्थ और तम्बाकू	1	10	3	—	—	—
4. वस्त्र	235	5,12	4,22	—	—	—
(क) सूती वस्त्र	1	1	2	—	—	—
(ख) पैटसन और अन्य प्राकृतिक फायबर के वस्त्र	—	—	—	—	—	—
(ग) हथकरघा वस्त्र और खादी	110	3,65	2,63	—	—	—
(घ) अन्य वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	124	1,46	1,57	—	—	—
5. कागज, कागज उत्पाद और मुद्रण	11	47	19	—	—	—
6. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	128	1,46	1,37	—	—	—
7. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	10	76	38	—	—	—
8. रत्न और आभूषण	—	—	—	—	—	—
9. रबर और प्लास्टिक उत्पाद	10	78	65	—	—	—
10. रसायन और रासायनिक उत्पाद	5	5,05	5,04	—	—	—
(क) भारी औद्योगिक रसायन	—	—	—	—	—	—
(ख) उर्वरक	—	—	—	—	—	—
(ग) औषध और औषधीय उत्पाद	—	—	—	—	—	—
(घ) खाद्यतेर तेल	—	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद	5	5,05	5,04	—	—	—
11. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन	—	—	—	—	—	—
12. सीमेंट और सीमेंट उत्पादों का निर्माण	2	2	2	—	—	—
13. मूल धातुएं और धातु उत्पाद	25	29	33	—	—	—
(क) लोहा व इस्पात	—	—	—	—	—	—
(ख) अलोह धातु	—	—	—	—	—	—
(ग) धातु उत्पाद	25	29	33	—	—	—
14. अभियांत्रिकी	20	25	26	—	—	—
(क) भारी अभियांत्रिकी	—	—	—	—	—	—
(ख) हल्की अभियांत्रिकी	15	17	18	—	—	—
(ग) विद्युत मशीनरी और सामान	3	6	6	—	—	—
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सामान	2	2	2	—	—	—
15. वाहन, वाहन पुर्ज और परिवहन उपस्कर	10	17	17	—	—	—
16. अन्य उद्योग	328	7,48	5,76	—	—	—
17. विद्युत, गैस और जल	—	—	—	—	—	—
(क) विद्युत उत्पादन और प्रेषण	—	—	—	—	—	—
(ख) गैर-परंपरागत ऊर्जा	—	—	—	—	—	—
(ग) गैस, बाष्प और जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	—
18. निर्माण	604	16,58	13,04	—	—	—
(क) आधारभूत निर्माण के अलावा	61	10,49	10,43	—	—	—
(ख) आधारभूत निर्माण	543	6,10	2,61	—	—	—
III. परिवहन परिचालक	105	3,82	3,32	—	—	—
IV. व्यावसायिक और अन्य सेवाएं	1,189	14,45	12,80	—	—	—
1. व्यावसायिक सेवाएं	135	1,83	1,36	—	—	—
2. पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	31	1,28	1,24	—	—	—
3. मनोरंजन सेवाएं	6	6	6	—	—	—
4. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार	2	90	76	—	—	—
5. अन्य	1,015	10,37	9,38	—	—	—
V. वैयक्तिक ऋण	11,920	129,68	101,10	—	—	—
1. आवास	1,504	44,89	35,47	—	—	—
2. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	1,101	7,11	5,52	—	—	—
3. वाहन	973	7,38	5,81	—	—	—
4. शिक्षा	102	2,03	1,60	—	—	—
5. व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड	11	5	2	—	—	—
6. अन्य	8,229	68,23	52,68	—	—	—
VI. व्यापार	1,200	27,53	23,14	—	—	—
1. थोक व्यापार	113	4,23	2,81	—	—	—
2. खुदरा व्यापार	1,087	23,30	20,33	—	—	—
VII. वित्त	24	20	13	—	—	—
VIII. अन्य सभी	608	10,49	9,21	—	—	—
कुल बैंक ऋण	20,112	255,39	208,06	—	—	—